

## योग और ध्यान से पूरे दुनिया में बढ़ा भारत का मान - सिन्हा

आबू रोड, 10 नवम्बर, निसं। भारत सरकार के रेलराज्य तथा संचारमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत की प्राचीन पद्धति, राजयोग और ध्यान ने पूरे विश्व में एक माहौल पैदा कर दिया है। इससे भारत का मान बढ़ा है। वे ब्रह्माकुमारीज संस्था के डायमंड हॉल में उपस्थित करीब बीस हजार लोगों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रस्ताव रखा और आज पूरा विश्व भारत की धरोहर योग सीख रहा है। इसमें भी ब्रह्माकुमारीज संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के 140 देशों में इस तरह का आयोजन इस बात को दर्शाता है। ब्रह्माकुमारीज संस्थान केवल योग ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में अहम योगदान कर रही है।

आबू रोड रेलवे स्टेशन का स्वच्छता का संकल्प लेकर एक अच्छा काम किया है। लगातार इससे रेलवे को मदद मिल रही है। अभी वातानुकूलित प्रतीक्षालय में भी संस्थान का अहम योगदान है। जिससे बनकर वह तैयार हो गया है। जिससे आम लोग बैठ सकेंगे।

दादीजी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि योग का ही कमाल है कि दादी जानकी 102 वर्ष की उम्र में भी एक्टिव है। नारी शक्ति का केन्द्र यह संस्थान पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि पूरे भारत भर में स्वच्छता अभियान चलाकर मदद करेगी।

ब्रह्माकुमारीज संस्था की मुख्य प्रशासिक राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि जब व्यक्ति के अन्दर नैतिक मूल्यों का विकास होता है तब वह सम्पूर्ण मानव बन जाता है। ऐसे में हमें अपराधों और सभी प्रकार की बुराईयों से मुक्ति के लिए अपने अन्दर परमात्मा की शक्तियों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्माकुमारीज संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने कहा कि हमारी संस्था का प्रयास है कि हम एक नये भारत निर्माण में सरकार और समाज दोनों का सहयोग करें जिससे एक बेहतर भारत बन सके। कार्यक्रम में अजमेर रेलवे मंडल के डीआरएम पुनित चावला, यूआईटी चेयरमैन सुरेश कोठारी, शांतिवन के मुख्य अभियन्ता बीके भरत, माउण्ट आबू डीएसपी विजयपाल सिंह, बीके प्रकाश, बीके सोमशेखर समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात दादी ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की।

फोटो, 10 एबीआरओपी, 1, 2, 3, 4 दादी से आशिर्वाद लेते मनोज सिन्हा,

## **Madhuban Rosary E-Mail Service**

Media Dept, Brahma Kumaris, Mt. Abu  
Email: [madhubanrosary@bkivv.org](mailto:madhubanrosary@bkivv.org)

### **Media Wing**

| [Facebook](#) | [Twitter](#)  
**Brahma Kumaris**

|

[Facebook](#) |

[Twitter](#)

[Instagram](#) | [Website](#) | [Intl Website](#)